

कर्म ही सफलता की कुन्जी है



जनपद सहारनपुर के विकास खंड देवबंद अर्वन में जनहित फाँउन्डेशन के आजीविका विकास कार्यक्रम के अंतर्गत जनहित फाँउन्डेशन कार्यकर्ताओं द्वारा श्रीमती अंजलि प्रभा पत्नी श्री नरेन्द्र कुमार को समूह के साथ जुडकर अपनी आजीविका बढ़ाने हेतु प्रेरित किया गया। श्रीमती अंजलि प्रभा के एक पुत्र और दो पुत्रियां हैं, सभी उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। पति की अस्थाई नौकरी है जिस कारण उसे साहूकार से कर्ज लेना पड़ रहा था वह अपनी आजीविका तो बढ़ाना चाहती थी परन्तु ऐसा कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था जिससे उसे आर्थिक साहयता मिले। जनहित कार्यकर्ताओं द्वारा श्रीमती अंजलि प्रभा पत्नी श्री नरेन्द्र कुमार को अपनी आजीविका बढ़ाने हेतु समूह से धन लेने हेतु प्रेरित किया गया, उसने समूह की बैठक में मात्र पाँच हजार रुपये की मांग अपनी दुकान में सामान बढ़ाने के उद्देश्य से की जिसे समूह की सदस्यों ने सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की।

श्रीमती अंजलि प्रभा ने पाँच हजार रुपये से दुकान में प्लास्टिक का सामान बढ़ाया तथा स्वयं दुकान पर बैठना शुरू कर दिया उसे घर पर ही रोजगार मिल गया। उसके इस व्यापार से एक माह में ३००० तीन हजार रुपये की बचत हुई। बचत का सिलसिला जारी है उसने इस आमदनी से अपनी संतान को उनकी पढ़ाई में मदद करनी शुरू कर दी तथा उसने अपने बच्चों को खाली समय में इस काम में लगा कर समय का सद उपयोग किया बेरोजगारी दूर करने का यही सबसे अच्छा तरीका है। इस बात से उसका पूरा परिवार खुश है। वह 10000 दस हजार रुपये लेकर अपने कारोबार को और बढ़ाना चाहती है उसने अपने समूह के सदस्यों को यह संदेश दिया है कि इंसान चाहे तो कर्म करके हर मुसीबत को कम कर सकता है अंजलि प्रभा के परिवार वालों ने जनहित फाँउन्डेशन द्वारा दिये जा रहे सहयोग की प्रशंसा की।